

I/419720/2021

I/419720/2021



आयुक्त का कार्यालय
Office of the Commissioner
केंद्रीय जीएसटी, अपील अहमदाबाद आयुक्तालय
Central GST, Appeal Ahmedabad Commissionerate
जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद ३८००१५.
GST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad
380015
Phone: 079-26305065 Fax: 079-26305136
E-Mail : commrappl1-cexamd@nic.in



-

F.No.: GAPPL/RTI/75/2021-APPEAL

24/09/2021

To,
Shri Amrinder Singh,
1002, Sector 27b,
Chandigarh-160019

विषय: सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.), अधिनियम 2005 के अंतर्गत Shri Amrinder Singh द्वारा दाखिल किया गया आवेदन संबंधी

सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.), अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा दाखिल किया गया आवेदन धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय को दिनांक 02-09-2021 अंतरित किया गया है।

2. Point wise reply for CGST Appeals Commissionerate Ahmedabad to the Subject RTI application is as under:

a. Total number of orders passed by Commissioner (Appeals) under Section 107 of the Act.	63
b. Out of the total number of orders referred to in (a) above, the number of orders pertaining to proceedings arising out of refunds under Section 54 of CGST Act.	63
c. Total number of Orders passed by Revisionary Authority under Section 108 of CGST Act.	Information sought does not pertain to Appeals.
d. Out of the total number of orders referred to in (c) above, number of orders pertaining to proceedings arising out of refunds under Section 54 of the CGST Act.	N.A.
e. Total amount of tax (central tax, state tax and union territory tax, as the case may be) confirmed by the various Commissioner(Appeals) in all orders passed under Section 107 of the CGST Act, relating to proceedings other than those emanating from Section 54 of the CGST Act.	NIL, there being no appeals decided other than those pertaining to Section 54 of the CGST Act.
f. Total amount of tax (central tax, state tax and union territory tax, as the case may be) confirmed by the Revisionary Authority in all orders passed under Section 108 of the CGST Act, relating to proceedings other than those emanating from Section 54 of the CGST Act.	N.A.

I/419720/2021

g. Total amount pre deposited by appellants under clause(b) of sub section (6) of Section 107 of the CGST Act	NIL, there being no appeals other than those pertaining to Section 54 of the CGST Act.
---	--

इस आदेश द्वारा असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत इसआदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के अंदर श्री मिहिर गांडाभाई रायका, संयुक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, अहमदाबाद, सातवीं मंजिल, केंद्रीय जी.एस.टी. भवन, राजस्व मार्ग, अंबावाड़ी, अहमदाबाद-३८००१५ के समक्ष अपील दाखिल करें।

Any person aggrieved by this Order may file an appeal under section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005 within thirty days from the date of receipt of this order to Shri Mihir Gandabhai Raika, Joint Commissioner (Appeals), Central GST, Ahmedabad, 7th floor, Central GST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad-380015.

भवदीय

Umesh Kumar

Garg

Deputy Commissioner

Copy to: Superintendent (System), CGST (Appeals), Ahmedabad